



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1970/पौष 27, 1891

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1970/PAUSA 27, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND  
COMPANY AFFAIRS

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January 1970

S.O. 230.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Pepper and Ginger Merchants' Association Ltd., Bombay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of one year ending 18th January, 1971, in respect of forward contracts in pepper within the limits of Greater Bombay as defined in the Bombay General Clauses Act, 1904 (Bombay Act 1 of 1904), as in force in the State of Maharashtra.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such conditions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. 12(16)-IT/69.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

**श्री श्रोनिक विकास, आन्तरिक व्यापार और सन्धनी कार्य संचालन**

**(आन्तरिक व्यापार विभाग)**

**अभि सूचना**

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1970

का० आ० 230.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दी गई मान्यता के नवीकरण के लिए एम्पयर एंड डिज़र मचण्ट्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा आवेदन पर, बायश बाजार आयोग से परामर्श करके विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रवृत्त मुम्बई साधारण खंड अधिनियम 1904 (1904 का मुम्बई अधिनियम 1) में यथा परिभाषित बृहत्तर मुम्बई की सीमाओं के भीतर काली मिर्च में अग्रिम संविदाओं की बाबत उक्त एसोसिएशन 18 जनवरी, 1971 को समाप्त होने वाली 1 वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा मान्यता प्रदान करती है।

एतद्वारा दी गई मान्यता इस शर्त के अध्वीन होगी कि उक्त एसोसिएशन ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो बायश बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दी जाये।

[सं० 12 (16)—आई० टी०/69]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।